



“ अंदर से चमकने वाले प्रकाश को कोई भी मंद नहीं कर सकता ”
माया एंजेलो ...

भारत टाइम्स

www.bharattimenews.com

सत्यमेव परं श्रुतम्

Bharattimesnews01@gmail.com

अवार्ड 2024 का आयोजन आज

वर्ष- 2

अंक-131

दिल्ली, शनिवार 23 जून 2024

पेज-8

ई-पेपर नई दिल्ली से प्रसारित

न्यूज ब्रीफ

जलयात्रा के बाद भगवान जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया गया



अहमदाबाद। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर अहमदाबाद के जगन्नाथ जी के जलाभिषेक के साथ ही आगामी रथयात्रा की प्रक्रिया का शुभारंभ हो गया इस प्रक्रिया के पहले चरण में आज अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से परंपरागत जलयात्रा निकलकर साबरमती नदी किनारे पहुंची जहां से 108 कलश में भगवान के जलाभिषेक के लिए जल भरा गया नदी से लाए गए जल से भगवान जगन्नाथ जी का जलाभिषेक किया गया ज्येष्ठ नक्षत्र में भगवान का जलाभिषेक किया जाता है इसलिए इसे ज्येष्ठभिषेक भी कहा जाता है वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान जगन्नाथ जी की पूजा-अर्चना की गई,

मिथिला विवि के 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर का नामांकन रद्द



दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विवि के 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर का नामांकन गुरुवार को रद्द कर दिया गया है। छात्र कल्याण अक्षय प्रो विजय कुमार यादव ने बताया कि हाईकोर्ट पटना के आदेश के आलोक में विहार अधिनियम के आधार पर स्नातक प्रथम सेमेस्टर में नामांकन के लिए तैयार प्रथम चयन सूची को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। आरक्षण 2019 के आधार पर तैयार आरक्षण रोस्टर्ड बिंदुओं के अनुसार नामांकन के लिए पुनः चयन सूची प्रकाशित की जाएगी। प्रथम चयन सूची में 1 लाख 75 हजार 478 छात्र-छात्राओं में से एक लाख 31 हजार 380 का नामांकन के लिए चयन किया गया था। जारी सूची के आधार पर स्टूडेंट्स को 24 जून से 4 जुलाई तक आवंटित कॉलेजों में नामांकन लेने के लिए कहा गया था।

सांसद के पास फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित को तहसीलदार ने फटकारा, बिना मिले भगा दिया



मथुरा। तीर्थनगरी मथुरा में 15 से 22 जुलाई तक मुड़िया मेले का आयोजन होना है। शनिवार को इसको लेकर बैठक गेवर्नमेंट में आयोजित हुई। बैठक में हिस्सा लेने के लिए सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री भी पहुंचे थे। इसी बीच एक पीड़ित अपनी समस्या लेकर सांसद से मिलने पहुंचा। तहसीलदार ने उसे फटकार लगाई और बिना मिले ही भगा दिया। वहीं कुछ अन्य महिलाएं अपनी समस्या लेकर पहुंचीं। उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया।

युवक को साइबर टगी के लिए किया मजबूर

गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में साइबर टगी का मामला खूब फल फूल रहा है। ऐसे ही एक मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल, साइबर टगी गैंग के सदस्यों ने पहले मुंबई के एक युवक को बेहतर नौकरी दिलाने के नाम पर उसे गुरुग्राम ले आए। यहां पर उसे साइबर टगी का काम करने के लिए मजबूर कर जरायम की दुनिया में धकेल दिया। पीड़ित युवक को फर्जी बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर करते हुए अपराध की दुनिया में धकेल दिया। आखिर उसे ऐसा कराने के आरोपी पुलिस के हथ्थे



चढ़ ही गए। अब गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त (साइबर अपराध) प्रियांशु दीवान के मुताबिक बताया कि मुंबई के 29 वर्षीय व्यक्ति को नौकरी लगवाने के नाम पर गुरुग्राम लाया गया। फिर उसे एक दर्जन से अधिक

बैंक खाते खोलने के लिए मजबूर किया गया, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधियों ने किया। उन्होंने कहा कि मामले में शामिल दो संदिग्धों को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित की पहचान मुंबई के मीरा रोड निवासी साहिल शाहन शरीफ के रूप में हुई है। साहिल की मुलाकात मुंबई में हरियाणा के कुरुक्षेत्र के बंटी कुमार से हुई थी। बंटी कुमार ने शरीफ को नौकरी दिलाने का वादा किया था। फिर उसे 26 मई को उसे गुरुग्राम ले आया। जहां उसे पालम विहार में किराए के मकान में रखा गया।

हो रहा लोगों की सेहत से खिलवाड़: डीमार्ट और आईपरमार्ट सुपरमार्केट में मिला नकली घी और तेल

सप्लाई करने वाली फर्मों को किया सीज, फर्मों के मालिक फरार

यह तो हम आम दुकानों पर मिलने वाले सामान की बात कर रहे हैं वहीं लोग मॉल से सामान लेना अपनी शान समझते हैं लेकिन अब आप डीमार्ट और आईपरमार्ट जैसी नामी रिटेल कंपनियों के आउटलेट में शॉपिंग कर रहे हैं



जयपुर। नकली सामान और मिलावटी चीजों को लेकर सरकार हमेशा लोगों को चेतावनी देती है और कई संस्थानों पर छापे मारकर सामान जब्त कर जुमाना भी लगाती है लेकिन इसके बावजूद नकली और मिलावटी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा बन रहा है इससे

डी-मार्ट के आउटलेट पर नकली सरस घी मिला। वहीं जयपुर के सिरसी रोड स्थित आईपरमार्ट पर भी टैगोर ब्रांड का नकली घी मिला है। जयपुर शहर के अलग अलग इलाकों में डी-मार्ट के आधा दर्जन से ज्यादा आउटलेट हैं। इन आउटलेट्स पर अनाधिकृत फर्म से सरस ब्रांड का घी सप्लाई होता है। आरसीडीएफ की सीएमडी सुषमा अरोड़ा ने बताया कि डीमार्ट को कूकरखेड़ा के गोदारा मार्केट में स्थित खंडेलवाल एंड कंपनी सरस घी सप्लाई होता है। इस फर्म का संचालक आशीष खंडेलवाल कूकरखेड़ा मंडी के अनुज ट्रेनिंग कंपनी से घी खरीद कर डी-मार्ट में सप्लाई करता था। ये दोनों ही फर्म सरस डेयरी के अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। कार्रवाई के बाद दोनों फर्मों को सीज कर दिया गया है और दोनों फर्मों के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

संजय सिंह की बीजेपी को नसीहत

भाजपाईयों सुधर जाओ। अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ,

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लेते हुए एक्स पोस्ट में लिखा था कि सत्ताधारी पार्टी की असंलियत सामने आ गया है। जो जज न्याय देगा बीजेपी के नेता उसी को गाली देंगे। संजय सिंह ने अपने पोस्ट में आगे



लिखा है, भाजपाईयों सुधर जाओ। अभी भी तुम्हारा अहंकार खत्म नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में 240 पर पहुंचे हो, अगली बार 24 पर आ जाओगे। अपनी सरकार की चिंता करो। वो जल्दी ही गिर जाएगी। उसके बाद किसी जज को गाली देकर देखना। तुम्हारा क्या हाल होगा? यह धमकी नहीं, सलाह दे रहा हूँ। इससे पहले 21

जून को आप नेता संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अगले आदेश तक रोक लगाने के बाद हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए, अभी दायल कोर्ट का आदेश भी नहीं आया है। अभी उसकी आदेश की कॉपी भी नहीं मिली है। इसके बावजूद मोदी की इंडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंचे गये? उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र से पूछा कि इस देश में ये क्या हो रहा है? न्याय व्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो, मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है।

आतिशी दोपहर और रात को गायब हो जाती हैं भाजपा ने अनशन को बताया झामा

नई दिल्ली। दिल्ली में लाखों की आबादी बूंद-बूंद को तरस रही है और इधर सियासी आरोपों-प्रत्यारोपों की बौछार हो रही है। राजधानी में जल संकट पर आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच सियासत जारी है। पानी के मुद्दे पर अनिश्चितकाल के लिए अनशन पर बैठें जल मंत्री आतिशी पर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता मनुजिंदर सिंह सिरसा ने आतिशी की भूख हड़ताल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इसे दोग करार देते हुए कहा, आतिशी जी की भूख हड़ताल भी उतना ही बड़ा झामा है जैसे केजरीवाल जी अपनी ईमानदारी का दोग करते हैं। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठने वाली आतिशी जी दोपहर और रात में गायब हो जाती हैं। सिरसा ने कहा, अगर आपको सत्याग्रह करना ही है तो टैकर माफिया के खिलाफ कीजिए। अपने उन विधायकों के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठिए जिन्होंने टैकर माफिया से दलाली खाई है और दिल्ली के लोगों को पानी के नाम पर लूटे हैं। उधर रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भाजपा दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र स्थित जल बोर्ड के ऑफिस के सामने धरना-प्रदर्शन कर रही है।

मुख्यमंत्री ने रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प शुल्क में कमी लाने के दिये निर्देश

सीएम का निर्देश, आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रेंट एग्रीमेंट का किया जाए सरलीकरण
ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता : मुख्यमंत्री

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के प्रस्तुतिकरण का मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

भारत टाइम्स
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और डाफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सीएम



योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिये। इसके लिए अलग

अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत

मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग की संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो। ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और रेरा अग्रवृद्ध संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के संकशन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसीजों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को

सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसीजों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाना चाहिए। पंजीकरण उपरोक्त प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा धरना अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए।

प्रधानमंत्री मोदी और हसीना ने व्यापार और संपर्क सहित कई मुद्दों पर की चर्चा



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ शनिवार को व्यापार और संपर्क सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने को लेकर चर्चा की। बांग्लादेश की पीएम शुक्रवार से दो दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। लोकसभा चुनाव के बाद भारत में नई सरकार के गठन के बाद, किसी विदेशी नेता की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा, हृदय प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता से पहले हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा, दोनों नेता 2019 से 10 बार मुलाकात कर चुके हैं, जिससे रिश्ते में अभूतपूर्व बदलाव आया है। इसके पहले प्रधानमंत्री हसीना ने सुबह राजधानी जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री के साथ वार्ता से पहले हसीना का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में रस्मी स्वागत किया गया। अधिकारियों ने बताया कि मोदी-हसीना वार्ता का मुख्य उद्देश्य व्यापार, संपर्क और ऊर्जा के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करना है। हसीना भारत के पड़ोसी और हिंद महासागर क्षेत्र के उन सात शीर्ष नेताओं में शामिल थीं, जो नौ जून को राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिरिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे।

10 दिन बाद ओबीसी कार्यकर्ताओं ने अनशन रोका, कहा- मांग पूरी नहीं तो फिर शुरू करेंगे

लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनशन फिर से शुरू किया जा सकता है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया।

महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जालना में अनशन पर बैठे दो ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और नवनाथ वाघमारे ने शनिवार को दस दिन बाद अनशन

खत्म किया। सरकारी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि हम विरोध अस्थायी रूप से स्थगित कर रहे हैं। हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तो इसे फिर से शुरू करेंगे। महाराष्ट्र में दस दिनों से अनशन पर बैठे दो ओबीसी कार्यकर्ताओं का अनशन सरकारी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद समाप्त किया गया। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि अनशन

फिर से शुरू किया जा सकता है, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। दरअसल 13 जून से दो अन्य पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। इनसे पहले मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे जालना में मराठा आरक्षण को लेकर अनशन कर रहे थे। अनशन पर ओबीसी कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और नवनाथ वाघमारे बैठे थे। शनिवार को

महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने अनशन समाप्त करने के बाद कहा कि हम अनशन अस्थायी रूप से स्थगित कर रहे हैं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम इसे फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियों के बारे में एक 'स्वतंत्र पत्र' जारी किया जाना चाहिए।

अमरनाथ यात्रा के औपचारिक शुभारंभ पर प्रथम पूजा की गई

अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 52 दिन तक चलेगी

श्रीनगर। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक अमरनाथ गुफा में शनिवार को प्रथम पूजा की गई। श्री अमरनाथजी थ्राइन बोर्ड (एसएसबी) के अध्यक्ष तथा जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपने आधिकारिक एक्स हैटल पर पोस्ट किया, आज वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के औपचारिक शुभारंभ के अवसर पर प्रथम पूजा की गई। बाबा अमरनाथ जी का आशीर्वाद लिया और सभी लोगों के अच्छे स्वास्थ्य, प्रगति और खुशहाली के लिए प्रार्थना



की। उन्होंने कहा कि कश्मीर हिमालय में समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित गुफा मंदिर की

पवित्र तीर्थयात्रा हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक रही है क्योंकि स्थानीय मुसलमान यात्रियों को गुफा मंदिर तक पहुंचने में मदद करते हैं। एक अन्य बयान में उन्होंने कहा 'कि जम्मू-कश्मीर की प्राचीन परंपरा रही है कि सभी समुदायों के लोग इस यात्रा में भाग लेते हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूँ कि वे देश और विदेश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले तीर्थयात्रियों का स्वागत और सेवा करने के लिए एक साथ आए।

Regd. 202045

भारतीय पत्रकार सभिति

पत्रकारों के हक में - पत्रकारिता के हित में

तेजी से उभरता भारत का सबसे बड़ा पत्रकारों का संगठन

पत्रकारिता से जुड़े व्यक्ति सदस्य बनने के लिए अपना बायोडाटा आईडी कार्ड सहित ईमेल करें

राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू

Email: indianjournalistcommittee@gmail.com

विषय: विज्ञान, विज्ञान, सेवाभाव

नवनिर्वाचित सांसद मुरारी लाल मीणा का किया गया स्वागत

◆भारत टाइम्स◆
अलवर राजेश गुप्ता। लोकसभा क्षेत्र दौसा की विधानसभा थानागाजी में नवनिर्वाचित सांसद मुरारीलाल मीणा जी का स्वागत-सम्मान एवं अभिनन्दन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने बताया की विधानसभा थानागाजी की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी थानागाजी एवं टहला की ओर से सांसद मुरारीलाल मीणा का साफा - माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। सांसद मुरारीलाल मीणा ने अपने सम्बोधन में कहा की कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, उनका उचित मान सम्मान रखना जरूरी है। थानागाजी विधानसभा क्षेत्र का



चहूँमुखी विकास करवाया जायेगा। उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों,

कार्यकर्ताओं एवं सभी क्षेत्रवासियों का जीत के लिए धन्यवाद व आभार व्यक्त

किया। इस दौरान अलवर कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा, दौसा कांग्रेस

जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओढ़, थानागाजी विधायक कर्ण प्रसाद मीणा, उर्मिला योगी, सुनील बोहरा, थानागाजी ब्लॉक अध्यक्ष बनवारीलाल शर्मा, टहला ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान सहाय शर्मा, उपजिला प्रमुख ललित मीणा, प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता, थानागाजी चेयरमैन चौधमल सैनी, प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, लोकेश जैमन, राम मीणा, राजेंद्र शर्मा, प्रभुदयाल एडवोकेट, प्रो. सोहनलाल मीणा, भवलाराम मीणा, दिनेश शर्मा, कप्तान सरपंच, विनोद शर्मा, राजगढ़ ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश शर्मा सहित कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

रावणा राजपूत समाज पूर्व जिला अध्यक्ष मूल सिंह गहलोत के मौजूदगी में रायपुर तहसील के 9 गावों की वार्षिक मीटिंग का आयोजन

◆भारत टाइम्स◆

बर कैलाश गुर्जर। रायपुर तहसील के 9 गावों की वार्षिक मीटिंग कुशालपुरा में रावणा राजपूत समाज के पूर्व जिला अध्यक्ष मूल सिंह गहलोत मौजूदगी में आयोजित हुई। इस सभा में बंसी सिंह जी धुलकोट, आनंद सिंह जी चौहान पूर्व अध्यक्ष रायपुर, सत्यनारायण सिंह जी कुशालपुरा, समुंदर सिंह जी खीची, विजय सिंह जी धुलकोट, देवी सिंह जी राजकोट आदि कई समाज



बंधुओं ने भाग लिया। इस सभा में आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया एवं कई सामाजिक कुरीतियों पर रोक लगाने का संकल्प लिया गया।

मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

◆भारत टाइम्स◆
चित्तौड़गढ़ (अमित कुमार चेचानी)। मेवाड़ गर्ल्स कॉलेज गांधीनगर, चित्तौड़गढ़ में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विभिन्न आयोजन किये गये। संस्थान अध्यक्ष गोविन्द लाल गदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि योग दिवस पर महाविद्यालय प्रांगण में प्रातः योग शिक्षिका टीना पालीवाल द्वारा छात्राओं को विभिन्न योगासन व प्राणायाम करवाये गये। अपराह्न योग गतिविधियों में जीवन में योग का महत्व विषय पर छात्राओं के लिए निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया व छात्राओं को नियमित



अपनी दिनचर्या में योगासन करने के लिए प्रेरित किया गया। निदेशक डॉ. एल.एल.शर्मा ने एक स्वस्थ व सफल जीवन के लिए योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग हमारे तन, मन को शांति प्रदान करने के साथ ही हमारे भीतर छुपी शक्ति व

सकारात्मक उर्जा को जाग्रत करता है। उन्होंने छात्राओं को अपने व्यक्तित्व विकास हेतु योग करने के लिए प्रेरित किया। सभी छात्राओं ने उत्साह पूर्वक इन गतिविधियों में भाग लिया व योग को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया।

सीरवी समाज वसई रोड महाराष्ट्र के 12 समाज बन्धुओं ने चारधाम की यात्रा करके पुनः सकुशल लोटे

◆भारत टाइम्स◆
मुम्बई। चार धाम यात्रा मुम्बई से 5 को रवाना होकर 7 को हरिद्वार पहुंचे वहां गंगा नदी में स्नान कर हर की पौड़ी पर आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ बाद में चार धाम की यात्रा में यमुनोत्री गंगोत्री कैदारनाथ बद्रीनाथ के यात्रा कर-के पुनः हरिद्वार समाज भवन पहुंचे 12 सदस्य सुजयाराम, कमला गेहलोत, रताराम, ओगडी देवदा, जगदिश वंदना सोलंकी मोहनलाल पेपी गेहलोत दलपत, इंद्रा पवार, खिमराम, कमला चोयल 20जून को शाम वसई रोड घर पहुंचे।



योग के बगैर अच्छा खानपान भी बेअसर है - दीपा इंदौरिया

कृषि विज्ञान केंद्र पर एक दिवसीय गृह वाटिका जागरूक महिला किसान गोष्ठी का आयोजन

◆सबलपुरा किटखेड़ा की 60 महिलाओं ने लिया भाग

◆भारत टाइम्स◆

चित्तौड़गढ़ (अमित कुमार चेचानी)। कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ पर दिनांक 21 जून 2024 एक दिवसीय गृह वाटिका जागरूक महिला किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ. रतनलाल सोलंकी ने बताया कि इस महिला कृषक सादरी पंचायत समिति के सबलपुरा किटखेड़ा की 60 महिलाओं ने भाग लिया। केंद्र के डॉ. सोलंकी ने महिलाओं को गृह वाटिका में जैविक तरीके से सब्जियां उगाने हेतु प्रोत्साहित किया इस दौरान प्रशिक्षण के दौरान जैविक खादों - कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट व वर्मी वाश (द्रव खाद) को तैयार करने की तकनीकी जानकारी दी। कार्यक्रम की प्रभारी दीपा इंदौरिया



ने बताया कि मानसून पूर्व गृह वाटिका जागरूक महिला किसान गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को गृह वाटिका लगाने हेतु जागरूक करना है ताकि आने वाले समय में ग्रामीण स्तर पर महिलायें न सिर्फ संतुलित आहार प्राप्त करे बल्कि एक स्वस्थ जीवन यापन करें। इसके लिये महिलाओं को गृह वाटिका महत्व, गृह वाटिका के रेखांकन से लेकर पौध तैयार करना तथा गृह वाटिका में क्या-क्या बनाने का तरीका,

उनमें पौध लगाने की तकनीकी जानकारी के साथ ही गृह वाटिका में प्रबंधन के बारे में विस्तार से बताया ताकि वे लोग अपने घर के आस पास के खाली हिस्से में गृह वाटिका की स्थापना कर सकें। कार्यक्रम के दौरान कार्यक्रम प्रभारी दीपा इंदौरिया ने खानपान और योग के बीच का संबंध अटूट बताते हुए महिलाओं को समय प्रबंधन के साथ योग जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया इस कार्यक्रम में महिलाओं ने न सिर्फ गृह



वाटिका प्रबंधन के बारे में जाना बल्कि योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करना भी सीखा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी सादरी के योगाचार्य शंभू लाल जी मेनारिया ने महिलाओं को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक तरीके से योग का महत्व समझाया तथा कुछ योग आसन सिखाए। केंद्र के कार्यक्रम सहायक संजय कुमार धाकड़ ने सब्जियों के उत्पादन के पश्चात सब्जियों की सुरक्षा तथा विक्रय तकनीकी के बारे में बताते हुए और महिला

किसानों को जैविक तरीके से सब्जियां लगाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम के अंत में मौसम के अनुसार सात प्रकार की सब्जियां तथा योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रति किसान महिला टी-शर्ट प्रदान की गई ताकि महिलाओं को कृषि (खान पान) एवं योग परस्पर गठबंधन का महत्व समझ में आ सके। कार्यक्रम के अंत में केंद्र रमेश चंद्र माली कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कृषक महिलाओं धन्यवाद ज्ञापित किया।



खारिया खंगार स्थित बिड़ला व्हाइट संयंत्र में अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया

◆भारत टाइम्स◆
बोरोड़ा सोहनलाल वैष्णव। उड़ान क्लब संस्थान अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (इकाई-बिड़ला व्हाइट) खारिया खंगार द्वारा दिनांक 21 जून 2024 स्थान-क्रिकेट मैदान राजश्री नगर खारिया खंगार में उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सफलतापूर्वक 10 वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। क्लब उड़ान बिड़ला व्हाइट ने शुक्रवार 21 जून, 2024 को आकर्षक और समृद्ध गतिविधियों की एक श्रृंखला के साथ गर्व से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जो सभी उम्र के सदस्यों को एक साथ लाया। यह आयोजन एक सफल योग सप्ताह के समापन को प्रदर्शित करता है जो हमारे समुदाय के भीतर स्वास्थ्य व कल्याण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। उत्सव की मुख्य विशेषताएं : योग प्रदर्शन ए.बी.पी.एस. स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा योग के लाभ और उसकी सुंदरता को प्रदर्शित करते हुए उत्साहपूर्ण प्रदर्शन किया गया। सहयोगात्मक प्रयास : यह कार्यक्रम ए.बी.पी.एस. स्कूल के छात्रों, प्राचार्य, शिक्षकों, एच.आर. टीम और विभिन्न सहायक कार्यों का एक सहयोगात्मक प्रयास था जो सामुदायिक भावना की शक्ति का प्रदर्शन करता है। जलपान आयोजन : कार्यक्रम में उपस्थित सभी भागीदारों ने स्वास्थ्य की भावना को पूरक करते हुए ताजा हर्बल जूस और फलों का आनंद लिया। विशेष आभार - हमारे संस्थान बिड़ला व्हाइट इकाई प्रमुख आलोक निगम और सुरभि महिला मंडल की अध्यक्ष कल्याण निगम को उनके अटूट समर्थन और मार्गदर्शन के लिए विशेष धन्यवाद। समापन टिप्पणियां : कार्यक्रम का समापन हमारे सम्मानित मुख्य अतिथि बिड़ला व्हाइट इकाई प्रमुख आलोक निगम, राजेश सिंह (आर एण्ड डी प्रमुख) एवं हेताराम कुरें सचिव क्लब उड़ान बिड़ला व्हाइट की व्यावहारिक समापन टिप्पणियों के साथ हुआ, जिन्होंने हमारे दैनिक जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। क्लब उड़ान स्वास्थ्य, कल्याण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे अदभुत कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने सभी सदस्यों और प्रतिभागियों को उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी के लिए धन्यवाद देते हैं, जिनके प्रयास से इस उत्सव को उल्लेखनीय सफलता मिली। संपर्क जानकारी हेताराम कुरें, सचिव क्लब उड़ान इकाई बिड़ला व्हाइट।

आवश्यकता
भारत टाइम्स न्यूज को रिपोर्ट्स
और अनुभवी मार्केटिंग
एजीक्यूटिव की आवश्यकता है।
यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो
अपना बॉयोडाटा हमें ईमेल करें।
Bharattimesnews01@gmail.com
Whatsapp
9509745147
9799911545

मस्ती की पाठशाला खुदनापुरी के बच्चों ने किया वृक्षारोपण नयी पीढ़ी में जगाई अलख


◆भारत टाइम्स◆
अलवर/राजेश गुप्ता। रेशम देवी नानक चन्द मित्तल फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी अल्का मित्तल ने बताया कि आर.डी.एन.सी. मित्तल फाउंडेशन द्वारा संचालित अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज ने कुछ ही समय पूर्व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनापुरी में कंप्यूटर क्लासेज एवं बच्चों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो इसलिए एक पुस्तकालय की शुरुत करवाई थी! जिससे सभी बच्चों में कंप्यूटर सिखाने एवं पुस्तकालय में आने से पढ़ाई के प्रति रूचि बढ़ सके आर.डी.एन.सी. मित्तल फाउंडेशन की आजीवन ट्रस्टी एवं अश्वत्थ लर्निंग



कम्युनिटीज की संचालक आरुषी मित्तल ने बताया कि अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज के सहयोग से 15 दिवसीय ग्रोप कालीन समर केम मस्ती की पाठशाला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खुदनापुरी में कक्षा एक से पांचवीं तक के बच्चों हेतु संचालित किया जा रहा है। जिससे बच्चों के शिक्षण की नियमितता बनी रहे बच्चों मनोरंजन, गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के साथ भाषा, कंप्यूटर में कोडिंग, थियेटर, आर्ट एण्ड क्राफ्ट और योगा पर स्कूल में बच्चों के साथ कार्य करवाया जा रहा है। जिसमें आज बच्चों की पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ते हुए बच्चों ने स्कूल और घरों में वृक्षारोपण किया

। इस मौके पर फूलसिंह, अमृता सुशीला, मधु सैनी सहित तकरीबन 35 से अधिक बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभा कर अपनी रूचि दिखाई। कार्यक्रम में अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटी की फाउंडर आरुषी मित्तल ने बताया कि अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटी की ओर से शिक्षकों के लिए एक ऐसी जगह बनाने की योजना है जहाँ शिक्षा के प्रति जागरूक एवं बदलाव लाने की भावना रखने वाले शिक्षक एकत्रित हो सकें और योगा पर स्कूल में कर सकें अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटी ऐसे शिक्षकों को आमंत्रित करती है जो हमारी इस मुहीम का हिस्सा बनना चाहते हैं।

अंतराष्ट्रीय योग दिवस प्रकृति के बीच धूम-धाम से मनाया



◆भारत टाइम्स◆

पुणे। बिबेवेवाडी में प्रकृति के बीच अंतराष्ट्रीय दशवां योग दिवस मनाया गया। खेल प्रेमी जीवाम सेटा ने बताया कि पर्यावरण प्रेमियों को सुबह सुर्ज नमस्कार, शलभासन, वज्रासन, पवनमुक्तासन, कपालभाति, अनुलोम-विलोम, प्राणायाम, वृक्षासन जैसे कई योगासन करके जानकारी दी गई। जीवाम सेटा ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दैनिक जीवन में नियमित प्रातः काल उठकर जहाँ पर भी बगीचे में जगह मिले वहाँ समय निकालकर योगासन और प्राणायाम को अपनाया चाहिए। जिससे साईटिका, स्लिप डिस्क, जोड़ो का दर्द, जुकाम, खांसी जैसी कई बीमारियों से छूटकारा मिल सकता है। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने दैनिक कार्य को सफल कर सकते हैं। आजकल वक्त दिन भर भाग दौड़ में तनाव ग्रस्त हो जाता है इसलिए कम से कम प्रतिदिन 20 मिनट का ध्यान योग अवश्य करें जिससे व्यक्ति का मन प्रफुल्लित रहे।

मांगीलाल गेहलोत ने उदयपुर छात्रावास में एक कमरे की घोषणा

◆भारत टाइम्स◆



पुणे। छात्रावास व शिक्षा के प्रति सकारात्मक सोच, उच्च विचार के भामाशाह मांगीलाल पुत्र श्रीमती मगनी बाई पकाराम गेहलोत गांव सिवास हाल महालक्ष्मी मेडिकॉ रामबाग कॉलोनी, कोठरुड पुणे ने सिरवी छात्रावास, उदयपुर हेतु 1 कमरे की स्वीच्छक घोषणा की व आपने यूआटी उदयपुर की 51 लाख फीस जमा कराने के समय भी 55 हजार पांच सौ- रुपये की स्वीच्छक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान

राशि संस्थान खतों में जमा कराये थे। भामाशाह मांगीलाल गेहलोत ने बताया कि बड़े शहरों में अपने विद्यार्थियों के रहने खाने की सुविधा करना बहुत जरूरी है, छात्रावास पढ़ने का अच्छा माहौल देता है साथ ही छात्रावास सहपाठियों के साथ बंधन विकसित करने का मौका प्रदान करता है और इससे वे जीवन भर के लिए सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं। यदि किसी छात्र को किसी विशिष्ट विषय पर कोई समस्या या संदेह है तो वह छात्रावास के भीतर पढ़ाई में साथी सहपाठियों की मदद ले सकता है। मांगीलाल गेहलोत की छात्र शिक्षा व समग्र सामाजिक उत्थान की भावना के लिए उदयपुर संस्थान की ओर से आभार जाता। भामाशाह मांगीलाल गेहलोत ने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इस सामाजिक संस्था में भागीदारी होनी चाहिए।

देश में शिक्षा के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र, केंद्र का काला सच लील गया विद्यार्थियों का भविष्य - टीकाराम जूली



◆भारत टाइम्स◆

जयपुर अलवर/ राजेश गुप्ता। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर पूरी तरह फैलियर होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है। देश के विद्यार्थियों का राजनीति के चक्रव्यूह व धनबल के

तहत शैक्षिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सी यूजीसी नेट जून 2024 की परीक्षा को पहले रद्द कर दिया। इस वर्ष मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में भी लगातार अन्देखी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए एक स्वायत्त निकाय

पीएम श्री राउमावि "बाबरा स्कूल टाइम्स" एवं चित्रात्मक बुकलेट का विमोचन



◆भारत टाइम्स◆

बर कैलाश गुर्जर। कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत के द्वारा शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भूमि पूजन हेतु दिया गया निमंत्रण। कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत एवं आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाबरा के अखबार बाबरा स्कूल टाइम्स एवं विद्यालय की चित्रात्मक बुकलेट का विमोचन जयपुर स्थित मंत्रालय भवन में किया, इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्री कृष्ण कुणाल सहित

मंत्रालय का स्टाफ उपस्थित था, ग्राम से समाजसेवी श्री देवेन्द्र सिंह जोधा, पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नंदलाल सिंह जोधा, संदंडा उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री भीष्म चंद परिहार एवं बाबरा विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक श्री अशोक चौधरी सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे इस अवसर पर पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बाबरा श्री नंदलाल सिंह जोधा ने शिक्षा मंत्री जी को विद्यालय की गतिविधियों से स्वरूक करवाया एवं पीएम श्री विद्यालयों की सफलता की शुभकामनाएं दी।



सीरवी स्पोर्ट्स चैनल, टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ आयोजन

◆भारत टाइम्स◆

चेन्नई। सीरवी स्पोर्ट्स चैनल के तत्वावधान में अल्पयुवक स्थित एमएसआर स्पोर्ट्स अकादमी में सीरवी टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें कुल 16 ?टीमें ने भाग लिया। सीरवी टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट में एलिट वॉरियर्स, प्रेमंस क्रिकेट क्लब, द बॉयज, सिर्वाई टाइम्स, पोरुर, सीरवी स्पोर्ट्स, माताजी स्पोर्ट्स, नेरकुंडम सुपर स्टाइकर्स, एनसीसी, गली सुपर क्रिक्स, रेडहिल्स, अनकापुथुर फाइटर्स, एनएसके, एसएसके वेल्डोर, डीएनएस, पडापड, मास्क सीरवी क्लब आदि टीमें ने हिस्सा लिया। सभी टीमें ने अच्छा प्रदर्शन किया और कई रोमांचक मैच खेले। इस सीरवी टर्फ क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता फ्रेंडली क्रिकेट क्लब रही। उपविजेता सीरवी टाइम्स रही। वहीं तृतीय स्थान पर विजेता ब्रेस्ट सिस्के रही। टूर्नामेंट में रामपुरम अश्वक कानाराम, नारायणलाल, भगारम, तेजाराम, अमरचंद, राजेश, मुकेशजी, जगदीशजी, रमेश, लालाराम, पुरुछतम, दीपाराम, बाबूलाल, हापुराम, धमाराम, रमेश आदि उपस्थित थे। समिति सदस्य टूर्नामेंट को सफल बनाने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया।

स्वर्गीय सुंदर सिंह भंडारी का जीवन प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए एक आदर्श- भूपेंद्र यादव

जनसंघ से लेकर वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और सुंदर सिंह भंडारी के द्वारा बताए गए



भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विस्तृत रूप से प्रकाश डाला और सुंदर सिंह भंडारी के द्वारा बताए गए आदर्श पर चलने का आह्वान किया सरकार सरकार के एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने अपने संबोधन में बताया कि सुंदर सिंह भंडारी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह था जिसमें आदर्श और अनुशासन के पाठ प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए किया गया जनसंघ से लेकर वर्तमान



कोली, बना राम मीणा, जिला महामंत्री राम अवतार चौधरी गोवर्धन सिंह सिरोदिया शिवलाल मीणा उपाध्यक्ष हरिशंकर खंडेलवाल, जले सिंह, देशराज वर्मा, हरीश यादव, रमन गुलाटी, जिला प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र गोयल, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शह प्रवक्ता नरेश ढाणवात जिला मंत्री अनूप वाल्मीकि, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व विधायक जय राम जाटव, मामन सिंह यादव, मंगल राम

खामबर, महेश मीणा, पंकज यादव, सुशील यादव मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान राजेंद्र सैनी अशोक तिवारी, तुलसी नवालिया, सरदार गगनदीप सिंह आशीष अरोड़ा महेंद्र यादव अविनाश खंडेलवाल, मधु यादव जितेंद्र शर्मा, जितेंद्र गोयल, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शह प्रवक्ता नरेश ढाणवात जिला मंत्री अनूप वाल्मीकि, महापौर घनश्याम गुर्जर, पूर्व विधायक जय राम जाटव, मामन सिंह यादव, मंगल राम

आंगनवाड़ी केंद्रों की देखी धरातलीय स्थिति जिला कलक्टर के निर्देश पर सभी एसडीओ और तहसीलदारों ने किया आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण



◆भारत टाइम्स◆

राजसमंद विद्याधर वैष्णव। जिला कलक्टर डॉ भंवर लाल के निर्देश पर शनिवार जिले के उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों ने आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थिति, वहां उपलब्ध सुविधाओं और बच्चों को मिलने वाली सेवाओं का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत हो रहे एक बड़े षड्यंत्र का काला सच है।

अवैध खनन पर कार्रवाई जारी, एक जेसीबी और डंपर जब्त



◆भारत टाइम्स◆

राजसमंद विद्याधर वैष्णव। जिले में रात को विशेष चेकिंग अभियान के दौरान अवैध खनन और परिवहन में शामिल दो वाहनों को जब्त किया गया। यह कार्रवाई खनन विभाग खंड द्वितीय टीम द्वारा की गई एम ई ललित बाखरा ने बताया कि नाथद्वारा के निकट गोडच में अवैध खनन का परिवहन करते हुए जब्त की गई जेसीबी मशीन को पुलिस थाना देलवाड़ा के परिसर में रखा

मोबाइल एवं ज्वलर्स की दुकानों को बनाया निशाना,



◆भारत टाइम्स◆

देवगढ़ विद्याधर वैष्णव। थाना क्षेत्र के ताल गांव की है घटना जहाँ एक रात में दो दुकानों के शटर को कंट कर के मोबाइल एवं ज्वलर्स की दुकानों को बनाया निशाना, मोबाइल गलेरी के नाम से ग्राम ताल में भेन बस स्टैण्ड पर स्थित है। घटना शुक्रवार देर रात्रि की है मे हमेशा की तरह अपनी मोबाइल की दुकान को बन्द कर अपने घर सुरतपुरा चला गया। शनिवार सुबह मे मेरे दोस्त का ताल से फोन आया कि गजानन्द सोनी की यहां चोरी हो गई है तो मैं भी

चोरी



◆भारत टाइम्स◆

एक ही रात मे दो दुकानों के टूटे शटर

मोबाइल एवं ज्वलर्स की दुकानों को बनाया निशाना,



◆भारत टाइम्स◆

मोबाइल की पेड़ वाले-20 नंग मोबाइल एलसीडी कोम्बो 155 नंग, स्पीकर बड़े 2-10, मोबाइल एमएसरीज इयरफोन, इयर बाईडिस, पावर बैंक, गाडी चाजर, फोन चाजर, फोन ग्लास, चाजर पीन, हेडफोन, टोपी, नैल कटर, कैंची, मोबाइल बैट्री, स्मार्ट वॉच, टॉच, चश्मा, बेल्ट व अन्य छोटा रिपेरिंग का सामान जो नहींथा उक्त चोरी हुए सामान की किमत लगभग 4,50,000/- अक्षर चार लाख पचास हजार रुपए है तथा ग्राहकों के रिपेरिंग के लिये पड़े एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन, शकश 95 जिसके कटएक 862889042319890, फीम 77 861067048944794, उडसचर



◆भारत टाइम्स◆

मोबाइल की पेड़ वाले-20 नंग मोबाइल एलसीडी कोम्बो 155 नंग, स्पीकर बड़े 2-10, मोबाइल एमएसरीज इयरफोन, इयर बाईडिस, पावर बैंक, गाडी चाजर, फोन चाजर, फोन ग्लास, चाजर पीन, हेडफोन, टोपी, नैल कटर, कैंची, मोबाइल बैट्री, स्मार्ट वॉच, टॉच, चश्मा, बेल्ट व अन्य छोटा रिपेरिंग का सामान जो नहींथा उक्त चोरी हुए सामान की किमत लगभग 4,50,000/- अक्षर चार लाख पचास हजार रुपए है तथा ग्राहकों के रिपेरिंग के लिये पड़े एन्ड्रॉयड मोबाइल फोन, शकश 95 जिसके कटएक 862889042319890, फीम 77 861067048944794, उडसचर



◆भारत टाइम्स◆

नाम से है उसके भी दुकान के शटर को भी नीचे से काटकर दुकान के गल्ले में रखे 4,000/- अक्षर चार हजार रुपए नगद व चांदी की बिडिया व अंगुठियां वजनी 150 ग्राम को उक्त अज्ञात बदमाश व्यक्ति चुराकर ले गये तथा दुकान के बाहर व अन्दर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जात रहे की प्रार्थना गजानन्द सोनी की दुकान में तीसरी बार चोरी की घटना हुई है इससे पूर्व भी दो बार चोरी हो चुकी है जिसकी रिपोर्ट भी गजानन्द सोनी ने देवगढ़ थाना में दर्ज करवाई है। उक्त चोरी की घटना से गजानन्द सोनी को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है पुलिस थाना अधिकारी अनिल विश्वासे ने बताया की रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है एवं पुलिस जाँच में जुटी है।



भारतीय पत्रकार समिति
की ओर से
राकेश यादव जी
को जन्मदिन

की हार्दिक
शुभकामनाएं



खेल महोत्सव एवं ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम

केबिनेट मंत्री भूरिया द्वारा विजेता टीमों को किया गया पुरस्कार

भारत टाइम्स
रहीम शेरानी झाबुआ। केबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा पुलिस कैम्प झाबुआ में पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए वृक्षारोपण किया गया एवं परिसर में स्थापित दिशा निर्देशक सेंटर का अवलोकन किया व कहा कि आज के समय में बच्चों को कितानों की ओर रूझान लाना बहुत आवश्यक हो गया है। इसके पश्चात सुश्री निर्मला भूरिया झाबुआ खेल महोत्सव एवं ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर 2024 के पुरस्कार वितरण व समापन समारोह कार्यक्रम में सम्मिलित हुईं। मुख्य अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। ग्रीष्मकाल का सड़पयोग खेलों के माध्यम से करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के



युवाओं को अधिक से अधिक खेलों से जोड़ने के उद्देश्य से ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 20 मई से 20 जून 2024 के मध्य जिला मुख्यालय, विकास खण्ड मुख्यालय एवं चिन्हीत खेलों में खेल संघों के सहयोग से एथलेटिक्स, हेण्डबॉल, तीरंदाजी, फुटबाल, कबड्डी, खो-खो, च्वालीबाल, कराते, बाक्सिंग

आदि खेलों में किया गया था, जिसमें लगभग 1295 बालक-बालिका खिलाड़ियों ने भाग लेकर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त किया। मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा बच्चों को खेल के प्रति जागरूक एवं प्रेरित करते हुए कहा कि खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है शारीरिक व मानसिक शांति के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। बच्चे खेल में बहुत



अच्छा प्रयास करते हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयासों से हम निश्चित ही ओलंपिक में जा सकते हैं। पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री जितेंद्र सिंह चौहान द्वारा भी बच्चों को खेल के प्रति प्रेरित किया गया। सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा विजेता टीमों को मेडल, शौल्ड एवं प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के

लिए शुभकामनाएं दीं। जिसमें च्वालीबाल और कराटे खेल में विकासखण्ड रामा को, फुटबाल, बैडमिन्टन में विकासखण्ड धान्दला को, फुटबाल, च्वालीबाल, हेण्डबॉल में विकासखण्ड पेटलावद को, बास्केटबाल, फुटबाल में विकासखण्ड मेहनगर को फुटबाल, कराटे में विकासखण्ड रानापुर को, फुटबाल में पुलिस लाईन झाबुआ

को, खो-खो में वनवासी आश्रम झाबुआ को, तीरंदाजी में बहुउद्देशीय खेल परिसर झाबुआ को, फुटबाल में उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ को, एथलेटिक्स में पुलिस लाईन झाबुआ को, हेण्डबॉल में शा.वा.उ.मा.वि.रातीतलाई झाबुआ को, फुटबाल में शा. महाविद्यालय झाबुआ को, बाक्सिंग में शा.वा.उ.मा.वि.रातीतलाई झाबुआ को, स्केटिंग में दिलीप क्लब झाबुआ को एवं फुटबाल में कैथोलिक मिशन स्कूल झाबुआ की टीमों को पुरस्कृत किया गया। ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने एवं ग्रीष्मकालीन नवाचार के उद्देश्य से जिला पुलिस बल एवं खेल और युवा कल्याण विभाग के संयुक्त प्रयासों से अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन 03 चरणों में किया गया था, प्रथम चरण में थाना स्तर की खेल प्रतियोगिता, द्वितीय चरण में अनुविभाग स्तर की

खेल प्रतियोगिता एवं तृतीय चरण में जिला स्तरीय अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता के प्रथम चरण थाना स्तरीय प्रतियोगिता में जिले के 09 थाना क्षेत्रों के ग्रामीण खिलाड़ियों ने जूनियर एवं सीनियर वर्ग में महिला व पुरुष वर्ग में आयोजित खेल प्रतियोगिता में बह चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। थाना स्तरीय प्रतियोगिता में थाना झाबुआ कोतवाली-416, थाना रानापुर-126, थाना कालोदेवी- 118, थाना कल्याणपुरा-48, थाना रायपुरिया-28, थाना पेटलावद-150, थाना धान्दला-200, थाना काकनवानी-30, थाना मेहनगर-160 महिला पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता के द्वितीय चरण अनुविभाग स्तरीय अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता में थाना स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता

खिलाड़ियों ने अनुविभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में सहभागिता की। इसी तारतम्य में अनुविभाग स्तरीय प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर वर्ग में महिला पुरुष वर्ग में अनुविभाग स्तरीय प्रतियोगिता में कुल 992 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अनुविभाग स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों ने दिनांक 20 जून 2024 एवं 21 जून 2024 को आयोजित जिला स्तरीय अन्तर थाना खेल प्रतियोगिता में 842 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र सिंह चौहान, अपर कलेक्टर सुमेर सिंह मुजाल्दा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झाबुआ प्रेमलाल कुर्वे, संयुक्त कलेक्टर सत्येंद्र कुमार दरो, समस्त एसडीओपी झाबुआ, उप पुलिस अधीक्षक कमलेश शर्मा, खेल अधिकारी विजय सलाम एवं पुलिस विभाग के धिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

भारत टाइम्स की खबर का असर

हिंडौन के महिला एवं बाल विकास विभाग में जांच शुरू

राजसमन्द/राजस्थान
www.bharattimnews.com
भारत टाइम्स
दिल्ली, रविवार 22 जून 2024

हिण्डौन के महिला एवं बाल विकास विभाग में फर्जीवाड़ा, महिला पर्यवेक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों से कर दिया लाखों का भुगतान

हिंडौन के महिला एवं बाल विकास विभाग में जांच शुरू कर दी है। इस बीच, सेनेटरी नेफकिन वितरण घोटाले की भी जांच शुरू की गई है, जो इस विभाग में पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया कि फर्जीवाड़ा केवल महिला पर्यवेक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। विभाग के कई दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि दौषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद, विभाग के कई

सभी वित्तीय लेन-देन की जांच शुरू कर दी है। इस बीच, सेनेटरी नेफकिन वितरण घोटाले की भी जांच शुरू की गई है, जो इस विभाग में पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय बना हुआ था। जांच टीम ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में पाया कि फर्जीवाड़ा केवल महिला पर्यवेक्षक के फर्जी हस्ताक्षरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें कई अन्य अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है। विभाग के कई दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों ने कहा है कि दौषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद, विभाग के कई

कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। सेनेटरी नेफकिन वितरण घोटाले की जांच के दौरान, पाया गया कि बड़ी मात्रा में नेफकिन वितरण में अनियमितताएं थीं और इनका हिसाब-किताब सही तरीके से नहीं रखा गया था। भारत टाइम्स की इस खबर ने समाज में भी बड़ा असर डाला है। कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दौषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाना चाहिए।

कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। कई कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। सेनेटरी नेफकिन वितरण घोटाले की जांच के दौरान, पाया गया कि बड़ी मात्रा में नेफकिन वितरण में अनियमितताएं थीं और इनका हिसाब-किताब सही तरीके से नहीं रखा गया था। भारत टाइम्स की इस खबर ने समाज में भी बड़ा असर डाला है। कई सामाजिक संगठनों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और दौषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार को ऐसी घटनाओं पर तुरंत रोक लगाना चाहिए।

स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव का दूसरा दिन

पत्रकार और चित्रकार से अधिक कठिन है कार्टूनिस्ट बनना

भारत टाइम्स

रहीम शेरानी झाबुआ। स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश द्वारा जाल सभागृह में आयोजित तीन दिवसीय भारतीय पत्रकारिता महोत्सव के दूसरे दिन भी विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों और कार्टूनिस्टों ने बेबाकी के साथ अपनी बात कही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल, कार्टूनिस्ट इस्माइल लहरी, घनश्याम देशमुख, त्रयम्बक शर्मा, नीलेश खरे, मंजुल आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में विशेष रूप से लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महानज ने भी शिरकत की। पहले सत्र में इकरं कार्टून की बात हंसी गुणुदी के साथ विषय पर मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ आदि प्रदेश से आये कार्टूनिस्टों ने खुलकर बात कही। विषय की भूमिका में स्टेट प्रेस क्लब मध्यप्रदेश से जुड़ी टीवी प्रोड्यूसर रचना जोहरी ने कहा कि आज हम सब हंसना भूल गए हैं और हँसने के लिए किसी टीवी सीरियल का इंजावर करते हैं। कार्टून को देखकर हमें हंसी भी आती है और कभी कभी व्यवस्था के खिलाफ हम आक्रोशित भी होते हैं। एक कार्टून बहुत कुछ



अभिव्यक्त करता है। लिहाजा अखबार में कार्टून का होना बेहद जरूरी है। व्यंग्य चित्रकार और पत्रकार नीलेश खरे ने कहा कि राजनीति में आज जितनी अच्छाई बची है, उतने ही अखबारों में कार्टूनिस्ट बचे हैं। एक चित्रकार और पत्रकार से अधिक कठिन है कार्टूनिस्ट बनना। एक संपादक किसी भी खबर या लेख को आसानी से संपादित कर सकता है, लेकिन एक कार्टून की रखाओं को कम ज़्यादा करना संपादक के लिए बेहद कठिन होता है। इसलिए वह कार्टून को एडिट करने की जोखिम नहीं उठाता है। कार्टून बनाना कभी भी आसान नहीं रहा। एक कार्टून को बनाने के लिए कार्टूनिस्ट को 6 से 7 घंटे तक पढ़ना होता है, तब जाकर वह एक अच्छा कार्टून बना पाता है।

खरे ने आगे कहा कि एक संपादक को कार्टून की समझ होना जरूरी है। कभी कभी कार्टून की वजह से उसे अखबार के मालिक या पाठकों की नाराजगी भी झेलना पड़ती है। कार्टूनिस्ट को प्राय धार्मिक चित्रों से बचना चाहिए। जब पाठकों को लगे की अखबारों में कार्टून अधिक छप रहे हैं तो समझ लेना चाहिए पत्रकारिता में आजादी अधिक आ गई है। वरिष्ठ कार्टूनिस्ट घनश्याम देशमुख ने कहा कि एक चित्रकार एक बेहतर कार्टूनिस्ट बन सकता है। क्योंकि वह रखाओं की कीमत को जानता है। कई मर्तवा एक अखबार में एक ही तरह के कार्टून छपते हैं। क्योंकि उन अखबारों के मालिक किसी विशेष राजनीतिक दल से जुड़े होते हैं। यह स्थिति आज भी बनी है। एक कार्टूनिस्ट अधिक स्वाभिमानी

होता है और वह जनता की आवाज बनकर कार्टून बनाता है। इसलिए ऐसे कार्टूनिस्ट एक अखबार में अधिक दिन तक अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कार्टूनिस्ट त्रयम्बक शर्मा ने कहा कि कार्टूनिस्ट बोलता बहुत कम है लेकिन उसके कार्टून में मुखता होती है। बाला साहब ठाकरे एक अच्छे कार्टूनिस्ट रहे, लेकिन जब उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वे एक अच्छे राजनेता सिद्ध हुए। राजनीतिक पार्टी को चलाना आसान है लेकिन कार्टून की पत्रिका को चलाना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ कार्टूनिस्ट को लोकतंत्र का बड़ा प्रहरी कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ कार्टूनिस्ट से समाज यही पूछता है कि कार्टून बनाने के अलावा और क्या करते हो। कार्टूनिस्ट बड़ा कंजूस होता है। वह कम रखाओं में अपनी बात कहता है। भारत में कार्टूनिस्ट विवेकशील होते हैं। इसलिए वे किसी बड़ी सेलिब्रिटी का भद्दा या बेहूदा कार्टून नहीं बनाते हैं। जबकिविदेशों में ऐसे बेहूदा कार्टून बनाना आसान है। दुर्भाग्य यह है कि अखबारों में भूय को तो पोस्ट होती है जबकि कार्टूनिस्ट की नहीं।

अरवल्ली जिले के सभी तालुकों में मनाया गया योग दिवस

भारत टाइम्स
भरतसिंह, आर, ठाकोर अरवल्ली, गुजरात। अरवल्ली जिले, भिलोडा, मोडासा, धनसुरा, बावड़, मालपुर में तालुका स्तर पर योग दिवस मनाया गया जिसमें बड़ी संख्या में तालुकों के लोगों ने भाग लिया और अपने स्वास्थ्य के लिए दैनिक जीवन में योग के लाभों को सीखा और जीवन में स्वस्थ रहने का निर्णय लिया। योग का अभ्यास करके, योग करने के लाभों और गतिहीन जीवन में



जीमारियों की बढ़ती संख्या के बारे में जन जागरूकता पैदा करने और आत्म-भोग का अनुभव करने और शारीरिक जीवन शक्ति का अनुभव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

का आयोजन किया गया था। जिसमें बड़ी संख्या में जनता ने योग किया। योग करने से मन शांत रहता है। ऐसा करने से चिंता नहीं होती, मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियाँ शरीर से दूर रहती हैं। योग से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। यह शरीर की हृदय गति में भी सुधार करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ाता है। इतना ही नहीं, योग रक्तचाप को नियंत्रित करने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

अरावली 181 अभयम महिला हेल्पलाइन की टीम ने एक 15 वर्षीय लड़की को उसके परिवार से मिलाया

भारत टाइम्स

भरतसिंह, आर, ठाकोर अरवल्ली, गुजरात। एक जागरूक नागरिक ने 181 अभय महिला हेल्पलाइन पर फोन किया और कहा कि भिलोडा तालुका के एक गांव में एक अज्ञात लड़की अकेली बैठी है लेकिन कहा जाता है यह पुरुष के बावजूद कुछ नहीं बता रही है, इसलिए मदद की जरूरत है और 181 की टीम मौके पर पहुंची लड़की से बात की



और उसका नाम, पता, उसके परिवार के सदस्यों का नाम और मोबाइल नंबर जानने की कोशिश की और बेन की बुनियादी जानकारी प्राप्त करने की

कोशिश की लेकिन उसे विभिन्न गांवों के नाम बताए, उसने आसपास के क्षेत्र में खोज की लेकिन कोई नहीं मिला वहां लड़की को जानता था, फिर उसने सोशल मीडिया के संपर्क में रहकर अलग-अलग गांवों में जांच की और बिछीवाडा तालुका के उन गांवों के सरपंच से संपर्क कर उनकी मदद लेने के बाद लड़की के परिवार और लड़की की मां से बात की भाई ने फोन पर बेन को सूचित किया।

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा विभिन्न विषयों के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग ली गई

भारत टाइम्स

रहीम शेरानी झाबुआ। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा शनिवार को विभिन्न विषयों के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग ली गई। लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विजन डायरेक्ट, भारत सरकार की प्लैगशिप स्क्रीम पर चर्चा, जल गंगा संवर्धन अभियान, वृक्षारोपण अभियान, सांसद एवं विधायकगणों के भ्रमण/निरीक्षण तथा पालन, स्कूल चलें हम अभियान, आंगनवाड़ी एवं पंचायतों के संचालन, स्व-सहायता समूह के लिए रोजगारों का सृजन, जिले में पंचायतों के द्वारा निर्मित गौ शालाओं का संचालन, सभी स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण, राजस्व संबंधित मामलों पर चर्चा, बाढ़ राहत के लिए आपदा प्रबंधन पर



चर्चा, खरीफ के कृषि आदानों की व्यवस्था एवं आगामी त्योहारों पर कानून व्यवस्था के संबंध में चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने प्रदेश में लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए जाने एवं जल गंगा संवर्धन अभियान हेतु सभी को बेधाई दी गई। जल गंगा संवर्धन को 30 जून तक बढ़ाया गया है। वृक्षारोपण अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री की मंशा है कि एक पौधा अपनी मां के नाम

अवश्य लगाए। अपने आस पास के बगीचों में भी पौधे लगाए जाए। पौधे छायादार एवं फलदार हो। एक्सिलेंस कॉलेज का लोकार्पण किए जाने, नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में संचालन के संबंध में चर्चा की गई। खरीफ की फसलों के संबंध में चर्चा की गई। मोटे अनाज सभी में एनपीएस बढ़ाई है। कोदो, कुटकी को भी इसमें शामिल किए जाने की बात कही व एनपीएस निर्धारित करने को कहा। हॉस्पिटल में यदि किसी कारणवश कोई मृत्यु हो जाती है तो उसका उचित प्रबंधन किए जाने के निर्देश दिए। नवीन विश्वविद्यालयों में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ व राशि प्रदान करने की बात कही। आगामी त्योहारों के संबंध में कानून एवं व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। सभी कलेक्टरों को निर्देशित किया की जवप्रतिनिधियों

से तालमेल कर विजन डायरेक्ट बनाए जाने, प्रदेश में ऐसे कार्य जिससे जिला लाभाञ्चित होने वाला हो उसको चरणबद्ध रूप के तैयार करने के निर्देश दिए। केबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया द्वारा जिले में जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से 20 लाख सीड बॉल लगाए गए एवं जिले में इस अभियान अंतर्गत बहुत अच्छा कार्य हुआ इस बारे में बताया गया। इस दौरान जिले से केबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया, कलेक्टर नेहा मीना, पुलिस अधीक्षक श्री पद्म विलोचन शुक्ल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पी एल कुर्वे, अपर कलेक्टर श्री एस एस मुजाल्दा एवं संबोधित अधिकारी उपस्थित रहे।

भरतसिंह, आर, ठाकोर अरवल्ली, गुजरात। इस कार्यक्रम में अरवल्ली जिला उत्कर्ष मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मालपुर डी.पी.शिक्षक उत्कर्ष मंडल के अध्यक्ष श्री निकेशकुमार पाटिल ने स्वागत भाषण दिया। उसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों, प्रतिभाशाली

बीआरसी भवन मालपुर में मालपुर उपजिला शिक्षक उद्यान संघ का स्नेहमिलन एवं मेधावी बच्चों का सम्मान समारोह एवं प्रोत्साहन कार्यक्रम आयोजित किया गया



शिक्षकों और प्रतिभाशाली बच्चों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में चेतन भाई, देवीलाल, कमलेश भाई, मुकुंदभाई, दिनेश भाई एवं कुमुदभाई ने सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का सफल संचालन जेएस वाहेला साहब ने किया तथा मंत्री श्री डीके सोलंकी ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम को सफल बनाया।

भरतसिंह, आर, ठाकोर अरवल्ली, गुजरात। इस कार्यक्रम में अरवल्ली जिला उत्कर्ष मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में मालपुर डी.पी.शिक्षक उत्कर्ष मंडल के अध्यक्ष श्री निकेशकुमार पाटिल ने स्वागत भाषण दिया। उसके बाद सेवानिवृत्त शिक्षकों, प्रतिभाशाली

मल्हारगढ़ में विश्व योग दिवस पर डॉक्टर कछवा एवं श्री बटवाल के मुख्य अतिथि में दो स्थानों पर योग शिविर संपन्न

योग प्रतिदिन अवश्य करें
लोक विलोम प्राणायाम सूर्य
नमस्कार जो योगासन
आपको याद हो उसकी
नियमित करें उससे मन
प्रसन्न रहता है शरीर स्वस्थ
रहता है।



गर्म पानी पीना चाहिए 2 से 4 गिलास उसके बाद में नित्य कामों से निवृत्त होकर जहां योग शिविर लगता है वहां जाकर योग करना चाहिए वहां नहीं पहुंच पाए तो घर पर ही योग प्रतिदिन अवश्य करें लोक विलोम प्राणायाम सूर्य नमस्कार जो योगासन आपको याद हो उसकी नियमित करें उससे मन प्रसन्न रहता है शरीर स्वस्थ रहता है और दिनभर की दिनचर्या उससे बहुत अच्छी होती है अपने आगे कहा कि हमें विशेष कर खान-पान पर हमें ध्यान देना चाहिए अंकुरित अनाज चाहे वह मूंग और उड़द हो गेहूं मक्का चामला इनका एक

दिन पहले पानी में गला दो कपड़े में बाद दो फिर अंकुरित हो जाए उसके बाद में सुबह-सुबह इसकी नाश्ता करना चाहिए और मोटे अनाज की रोटियां खाना चाहिए और ताजिया सब्जी ताजा फल फल फल का सेवन करना चाहिए अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आप स्वयं भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को भी इसकी प्रेरणा देकर उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं आज दसवां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज पूरे नगर मल्हारगढ़ में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में हर जगह योग प्रातः समय पर योग शिविर लगे हैं और

संयोजक डॉक्टर योगेश कछवा भेरुलाल प्रजापति संजय रत्नवर सुनील बाफना प्रकाश बेरगी पंच प्यार समूह के मांगीलाल भाना सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे कार्यक्रम का संचालन मल्हारगढ़ तहसील आरोग्य भारतीय संयोजक डॉक्टर जितेंद्र गहलोत ने किया कहां की यहां पर प्रतिदिन योग शिविर हो रहा है जिसमें अनेक माताएं बहने युवा पुरुष बच्चे भाग ले रहे हैं अंत में सभी को अंकुरित मूंग का नाश्ता करवाया महिलाओं का योग शिविर सरस्वती शिशु मंदिर ग्राउंड में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कच्छवा सभापति श्रीमती बटवाल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ मल्हारगढ़ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पर्व पर आरोग्य भारतीय के तत्वाधान में नगर की महिलाओं का योग शिविर सरस्वती शिशु मंदिर ग्राउंड में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती कच्छवा सभापति श्रीमती बटवाल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ जिसके मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष श्रीमती शर्मिला देवी प्रकाश सेन कच्छवा शिक्षा समिति के सभापति श्रीमती

विजयलक्ष्मी हरी कृष्णा बटवाल के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ योग शिविर में उपस्थित नगर की अनेक माता बहनों छात्राएं महिलाओं को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती कच्छवा श्रीमती बटवाल ने कहा कि हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और अपने को एवं परिवार को स्वस्थ रखना चाहिए और हमें प्रातः जल्दी उठना चाहिए और प्रतिदिन योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है दिनभर अच्छे निकलता है योग शिविर में नगर की अनेक माताएं बहने छात्राएं उपस्थित हुईं और नगर के प्रसिद्ध योगाचार्य दीपक मुजावदीया ने योगासन करवाए सूर्य नमस्कार लगावाए लोक विलोम प्राणायाम करवाए यहां पर शिविर में संप्रथम भगवान धन्वतरि जी के तस्वीर पर मुख्य अतिथियों ने मलयापणकर अगरबत्ती लगाकर दीप प्रज्जित कर योग शिवीर का शुभारंभ किया योग शिवीर के कार्यक्रम का संचालन योगाचार्य दीपक मुजावदीया ने किया।

फॉरेस्ट विभाग का वनपाल किसी अन्य की अंक सूची से कर रहा नौकरी



रतलाम /जगदीश परमार। रतलाम फॉरेस्ट विभाग में पदस्थ वनपाल किसी अन्य की अंक सूची से शासकीय सेवा का लाभ ले रहा है जब खबर प्रकाशित हुई जांच कमेटी बैठे और संपूर्ण दस्तावेज का अवलोकन किया लेकिन हमारे सूत्रधार बताते हैं स्कूल से जो प्रमाणित करके दस्तावेज जांच कमेटी को उपलब्ध कराया वह भी कहीं ना कहीं शंका को जन्म दे रहा है दस्तावेज में अंक सूची प्रमाणित करके जिस विद्यालय से दी गई उसे विद्यालय से बूज बिहारी नाम लिखकर दे दिया गया लेकिन पिता का नाम अंक सूची में नहीं है जब खबर को भारत टाइम्स से न्यूज़ में तो मुका से प्रकाशित किया तब विभागीय अधिकारी के संज्ञान में मामला आया और पांच सदस्य टीम गठित कर जांच बिट दी, लेकिन जांच समिति ने अभी

व्या जांच की उसकी संपूर्ण जानकारी मिल नहीं पाई लेकिन कक्षा आठवीं की मार्कशीट में ओवरराइटिंग करके नंबर फॉरेस्ट विभाग में पदस्थ वनपाल ने अपनी इच्छा अनुसार खल दिए गए, इसके पूर्व भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त उज्जैन की टीम जिसमें निरीक्षक दीपक सेजवार और उनकी टीम ने रिश्त कांड में गिरफ्तार किया था जिसका प्रकरण अभी वर्तमान में विभागीय निवारण न्यायालय में विचारार्थ है, अब देखा जा रहा है जांच कमेटी ने आखिर संपूर्ण दस्तावेजों का गहराई से अवलोकन किया या लीपा पोती करके मामले को दबा दिया गया, आठवीं की अंकसूची में स्वयं अवलोकन करके देखा जा सकता है कि किस प्रकार से इस भ्रष्ट फॉरेस्ट विभाग में पदस्थ वनपाल ने ओवरराइटिंग करके शासकीय सेवा का लाभ ले रहा है।

महिला अत्याचार के प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई चौहटन क्षेत्र में युवती द्वारा आत्महत्या करने के मामले में पुलिस द्वारा मात्र 12 घंटे में आरोपी को अहमदाबाद से किया दस्तयाब

प्रदीप कुमार गर्ग। श्री नरेन्द्रसिंह मीना IPS जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर ने बताया कि दिनांक 21.06.2024 को पुलिस थाना चौहटन के हल्का क्षेत्र भूकरानसर सोडियर में एक युवती द्वारा टांके में कुदकर आत्महत्या करने तथा परिवारजनों द्वारा शव घर पर रखकर विरोध प्रदर्शन करने के मामले में दिये गये निदेशानुसार श्री नितेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विशिष्ट अन्वेषण प्रकोष्ठ महिला अपराध बाड़मेर, श्रीमती कृतिका यादव वृताधिकारी वृत्त चौहटन व श्री विक्रमसिंह उ.नि. प्रभारी डीएसटी बाड़मेर, श्री गोविन्दराम उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना धनाऊ व श्री हनुमानराम उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना बीजराड, श्री बीजराजसिंह स.उ.नि. प्रभारी पुलिस थाना चौहटन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 12 घंटों में प्रकरण का खुलासा कर आरोपी खेमगिरी उर्फ मानगिरी पुत्र मेघगिरी जाति स्वामी निवासी गोदरों का तला लीलसर को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की गई है। घटना का विवरण - प्राथी श्री रामराम पुत्र श्री रायमलराम जाति मेगवाल निवासी सोडियर, भुकरासर पुलिस थाना चौहटन द्वारा बयुक्तम राजकीय चिकित्सालय चौहटन में एक लिखित रिपोर्ट पैश की कि मेरी भतीजी को खेमगिरी पुत्र मेघगिरी निवासी लीलसर जो पिछले दो माह से प्रताडित कर रहा था एवं अश्लील



फोटो एवं विडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही थी और मोबाइल पर ब्लेक-मेल कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के कारण मेरी भतीजी ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वगैर रिपोर्ट पर प्रकरण संख्या 141/2024 धारा 384,306 भादस व 3(2)(ट) एएसटी एएसटी एक्ट में दर्ज किया जाकर अग्रिम अनुसंधान वृताधिकारी वृत्त चौहटन द्वारा शुरू किया गया। कार्यवाही पुलिस - पुलिस अधीक्षक बाड़मेर द्वारा घटना का गम्भीरता से लेते हुए श्री नितेश आर्य अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ बाड़मेर, श्रीमती कृतिका यादव वृताधिकारी वृत्त चौहटन, थानाधिकारी धनाऊ, थानाधिकारी बीजराड, प्रभारी पुलिस थाना चौहटन व डीएसटी टीम को तुरन्त घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस टीम द्वारा जानकारी करने पर पाया गया कि एक युवती ने आरोपी

खेमगिरी द्वारा शादी का दबाव बनाने से आहत होकर आत्महत्या की गई है। जिस पर पुलिस द्वारा विशेष टीमों का गठन कर आरोपी खेमगिरी उर्फ मानगिरी पुत्र मेघगिरी जाति स्वामी निवासी गोदरों का तला लीलसर की तलाश हेतु टीमों को सभावित्र स्थानों पर भेजा गया। परिवारजनों से पुलिस द्वारा समझाईस कर मौके की कार्यवाही के बाद मृतका के शव को उप जिला अस्पताल चौहटन में मेडिकल बोर्ड से पोस्ट मार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की गई। गठित टीमों द्वारा मोके के हालात, तकनिकी आधार और परम्परागत पुलिसिंग के आधार पर गहनता से आरोपी खेमगिरी उर्फ मानगिरी पुत्र मेघगिरी जाति स्वामी निवासी गोदरों का तला लीलसर को अहमदाबाद से दस्तयाब करने में सफलता हासिल की गई। बाद पूछताछ आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर अग्रिम अनुसंधान व पूछताछ

की जा रही है। तरीका वारदात - अभी तक की पूछताछ में सामने आया है की आरोपी खेमगिरी उर्फ मानगिरी पुत्र मेघगिरी जाति स्वामी निवासी गोदरों का तला लीलसर का मृतका से अवैध संबंध और शादी करने हेतु मोबाइल फोन पर दबाव से आहत होकर मृतका द्वारा आत्महत्या करना पाया गया। दस्तयाब मूलनिवास का विवरण - खेमगिरी उर्फ मानगिरी पुत्र मेघगिरी जाति स्वामी उम्र 27 साल निवासी गोदरों का तला लीलसर।

समाजवादी पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष की मनाई गई पुण्यतिथि

रामनगर। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पुराने रामनगर एक लान में शुकुवार को सपा नेता पूर्व नगर अध्यक्ष स्वर्गीय रामाशंकर यादव की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके पुत्र जिलाध्यक्ष समाजवादी मजदूर सभा जय सिंह टाडगर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चिदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई नवीन सिंह, विधान परिषद सदस्य आशुतोष सिन्हा, पूर्व सांसद रामकिशुन यादव ने चित्र पर माल्यापण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सदस्य जिला पंचायत अजीत यादव उर्फ बाबू प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष महिला सभा रिजू श्रीवास्तव आदि लोगों ने उपस्थित थे।



धार्मिक स्थलों के दर्शनार्थ तीर्थ यात्रा दल खाना

बगडौनगर। देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शनार्थ श्रद्धालुओं का दल गुरुवार को यहां से खाना हुआ। समाजसेविका सुनीता लोहार ने बताया कि चारभुजा यात्रा संघ के तत्वावधान में आयोजित इस सांत दिवसीय तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालु गोकुल, मथुरा-वृंदावन, हरिद्वार, अयोध्याधाम व पुष्कर सहित कई धार्मिक स्थानों का दर्शन-अवलोकन करेंगे। तीर्थ यात्रा दल में साँडिया स्थित

केसरियाकवर देवस्थान के भोपाजी शिवजी, आमप्रकाश लोहार, समाजसेविका सुनीता लोहार, छोटकंवर, सामरकंवर, सूरज, प्रेमलता, पुष्पा, कमला, गीता, चुनोदेवी, लक्ष्मीनाथ व सुखिया सहित कई श्रद्धालुगण शामिल हैं।

(शीतल निर्भीक) वाराणसी। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा हेतु 22541/22542 बनारस- आनन्द विहार टर्मिनस-बनारस गरीब रथ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में बनारस से 7 जुलाई व आनन्द विहार टर्मिनस से 08 जुलाई, 2024 से एल.एच.बी. रैक से चलायी जायेगी। एल.एच.बी. रैक लगाये जाने के फलस्वरूप 22541 /22542 बनारस-आनन्द विहार टर्मिनस-बनारस गरीब रथ में वातानुकूलित

तृतीय श्रेणी इकोनोमी के 20 जनरेटर सह लगेज यान के 02 कोचों सहित कुल 22 कोच लगाये जायेंगे। इस गरीब रथ एक्सप्रेस में एलएचबी रैक लगाये जाने के कारण पूर्व में लगाये जा रहे वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 12 कोचों के स्थान पर वातानुकूलित तृतीय इकोनोमी श्रेणी के 20 कोच

वाराणसी। जेट मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि शनिवार को सुबह 6 बनेरस के अंतर्गत घाट संस्था कार्यक्रम में पशुपाल बंगाल से पधारी युवा कलाकार सोमा मंडल ने भरत नाट्यम नृत्य का शुभारंभ देवी कृत्य, महादेव की स्तुति एवं समापन किया। कार्यक्रम में प्रत्येक कोच के रैक लगाया जाएगा। एल.एच.बी. इकोनोमी के प्रत्येक कोच में 80 बर्थ होते हैं। ये कोच आरामदायक और सुरक्षा प्रदान करने वाली नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित, बेहतर रख-रखाव तथा

संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया



महेश मरेठा पिपलिया मंडी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अवसर पर श्री संकट मोचन टेकरि बालाजी, पिपलिया मंडी में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के अंतर्गत जीत बाँडी केयर संस्था एवं सुख समृद्धि वेलफेयर सोसाइटी संकल्पित मंदसौर के संयुक्त तत्वाधान में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। मुख्य आतिथ्य श्री श्री 1008 महंत अरविदास जी सरस्वती एवं विशेष अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि सुनील देवरिया, सभापति श्रीमती वंदना तिवारी, कमल टैगु, तिवारी रहे। मुख्य योग शिक्षक के रूप में जीत बाँडी केयर संस्था अध्यक्ष इंद्रजीत भट्ट ने सामूहिक योग करवाया गया, एवं योग के महत्व, आहार संबंधी जानकारी दी गई साथ ही सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, के उच्चारण के साथ ध्यान भी करवाया गया। सामूहिक योग के दौरान ब्लॉक समन्वयक श्रीमती अर्चना भट्ट जीत बाँडी केयर के आजीवन सदस्य सुनील खिंदावत, निक्की हरजानी, नीरज उपाध्याय, जितेंद्र धनार, आनंद झारिया, सुशील मोदी, पिकेश मीणा, संकल्पित संस्था मंदसौर से प्राज्ञ गुप्ता, जतिन गुप्ता एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र पांडे, अर्जुन पाटीदार, दिलीप कुमार एवं गायत्री नगरवासी, बच्चे एवं महिलाएं उपस्थित रहे।

कृष्ण मोहन पांडे ने प्रदान किया। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र एवम आशीर्वाचन प्रदान करने के साथ ही उनकी अनवरत संगीत सधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संस्था कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह ए बनारस के साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। घाट संस्था कार्यक्रम की परिकल्पना सुबह ए बनारस के साधना की प्रशंसा की गई। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।

पूर्वात्तर रेलवे जनता की सुविधा के लिए चलाएंगी कई स्पेशल ट्रेने

लगाये जाने से 664 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होंगे। इस गाड़ी में 664 अतिरिक्त बर्थ उपलब्ध होने से बनारस से आनन्द विहार टर्मिनस (दिल्ली) जाने एवं आने वाले यात्रियों को काफी सुविधा होगी। इस दौरान गरीब रथ एक्सप्रेस के सभी कोच एसी थ्री-टियर के हैं और इसका किराया भी अन्य ट्रेनों के वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोचों की तुलना में सस्ता है। पूर्वात्तर रेलवे के वाराणसी मंडल पर बनारस स्टेशन से आनन्द विहार टर्मिनस (दिल्ली) को जाने वाली गरीब

रथ एक्सप्रेस जो आईसीएफ कन्वेंशनल कोच वाले रैक से चलायी जाती है, के प्रत्येक कोच में 78 बर्थ होते हैं। उनकी जगह पर बनारस से 7 जुलाई, 2024 तथा आनन्द विहार टर्मिनस से 08 जुलाई, 2024 से नए डिजाइन के एल.एच.बी. इकोनोमी कोच के रैक लगाया जाएगा। एल.एच.बी. इकोनोमी के प्रत्येक कोच में 80 बर्थ होते हैं। ये कोच आरामदायक और सुरक्षा प्रदान करने वाली नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित, बेहतर रख-रखाव तथा

उच्च गति प्रदान करने वाली होती है। इन कोचों में मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल टेबल, फुट ऑपरेटेड पानी की टोटिया, विकल्पों हेतु प्रत्येक कोच में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इन कोचों में एच प्रकर के बॉटल होल्डर लगाए गए हैं। इन कोचों में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सामूहिक योग की सुविधा के लिए प्रत्येक कोच में फायर स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं। कोच में रिमोट कंट्रोल स्टीप लगाई गई है। इसमें अत्याधुनिक प्रकार के एल. ई. डी. डिस्प्ले बोर्ड का प्रावधान भी

किया गया है। दिव्यांग जनों के सुविधा हेतु अलग से वाशरूम की व्यवस्था है जो दिव्यांग सुलभ तथा ज्यादा स्पेस वाला है। एल.एच.बी. इकोनोमी कोच लगने से 22541/22542 बनारस-आनन्द विहार टर्मिनस-बनारस गरीब रथ के यात्रियों को उन्नत अत्याधुनिक, आरामदायक, संरक्षित नवीनतम सुविधाओं से युक्त कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस आशय की जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने मीडिया को दी।

रथ एक्सप्रेस जो आईसीएफ कन्वेंशनल कोच वाले रैक से चलायी जाती है, के प्रत्येक कोच में 78 बर्थ होते हैं। उनकी जगह पर बनारस से 7 जुलाई, 2024 तथा आनन्द विहार टर्मिनस से 08 जुलाई, 2024 से नए डिजाइन के एल.एच.बी. इकोनोमी कोच के रैक लगाया जाएगा। एल.एच.बी. इकोनोमी के प्रत्येक कोच में 80 बर्थ होते हैं। ये कोच आरामदायक और सुरक्षा प्रदान करने वाली नवीनतम सुविधाओं से सुसज्जित, बेहतर रख-रखाव तथा

उच्च गति प्रदान करने वाली होती है। इन कोचों में मोबाइल होल्डर, फोल्डेबल टेबल, फुट ऑपरेटेड पानी की टोटिया, विकल्पों हेतु प्रत्येक कोच में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। इन कोचों में एच प्रकर के बॉटल होल्डर लगाए गए हैं। इन कोचों में सुरक्षा हेतु सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। सामूहिक योग की सुविधा के लिए प्रत्येक कोच में फायर स्मोक डिटेक्टर लगाए गए हैं। कोच में रिमोट कंट्रोल स्टीप लगाई गई है। इसमें अत्याधुनिक प्रकार के एल. ई. डी. डिस्प्ले बोर्ड का प्रावधान भी

किया गया है। दिव्यांग जनों के सुविधा हेतु अलग से वाशरूम की व्यवस्था है जो दिव्यांग सुलभ तथा ज्यादा स्पेस वाला है। एल.एच.बी. इकोनोमी कोच लगने से 22541/22542 बनारस-आनन्द विहार टर्मिनस-बनारस गरीब रथ के यात्रियों को उन्नत अत्याधुनिक, आरामदायक, संरक्षित नवीनतम सुविधाओं से युक्त कोच की सुविधा उपलब्ध होगी। इस आशय की जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने मीडिया को दी।



समय पर और बिना त्रुटि के हर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाएं बिजली का बिल : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों को दिये निर्देश

सीएम का निर्देश, सही समय पर बिजली बिल जमा करने के लिए जनता को करें जागरूक

वन टाइम सेटेलमेंट (ओटीएस) के बारे में चलाएं व्यापक जागरूकता अभियान : मुख्यमंत्री

■ **भारत टाइम्स**
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की महत्वपूर्ण बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग की ओर से प्रस्तुत किये गये प्रोजेक्शन का अवलोकन किया। सीएम योगी ने कहा कि बिजली का बिल समय से जमा कराने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने का कार्य करना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार लोग मोबाइल का बिल नियत समय पर जमा करते हैं उसी प्रकार बिजली का बिल भी तय समय पर जमा कराने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए विभाग एक सुदृढ़ मैकेनिज्म तैयार

करे। सीएम योगी ने स्मार्ट मीटर लगाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि जनता को इसके लिए तैयार किया जाए। स्मार्ट मीटर आज की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि बिजली का बिल सही समय पर और बिना गड़बड़ी के हर उपभोक्ता के घरों तक पहुंचना चाहिए। मीटर रीडर को इसके लिए जवाबदेह बनाना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपभोक्ताओं को ओटीएस के बारे में जागरूक करें, ताकि बकाया बिजली के बिल को जमा करने में मिलने वाली सहूलियत के बारे में उसे अच्छी तरह से पता हो। मुख्यमंत्री जी ने

कहा कि बिजली के बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने पहले पांच साल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाया है, अब हमें अपना पूरा जोर क्वालिटी मेटेन करने पर देना होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेटेन के कारण अगर बिजली कटौती की जाती है तो कब और कितनी देर तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी इसकी पूर्व सूचना उपभोक्ताओं को देना जरूरी है। इसके लिए सोशल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्मार्ट मीटर की कवायद तो तेजी से आगे

बढ़ाया जाए। ईज ऑफ लिविंग के लिए यह बहुत जरूरी है, जिससे सच्चे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को बताया कि प्रदेश में बिजली सप्लाई के घंटों में बढ़ोतरी हुई है। वीते भीषण गर्मी के बावजूद और केवल लोकल फॉल्ट को छोड़ दें तो वीते 15 मार्च से सरकार 24 घंटे बिजली सप्लाई देने में सफल रही है। प्रदेश में कहीं भी बिजली

की कमी नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में 3.45 करोड़ बिजली कनेक्शन हैं। वहीं दो साल में 30 लाख कनेक्शन बढ़े हैं। बताया कि 2024 में अबतक 70 हजार करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत अधिक है। इसके अलावा कंज्यम टर्नअप शहरी इलाकों में करीब 92 प्रतिशत तो ग्रामीण इलाकों में 51 प्रतिशत है।

मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि प्रदेश में बिजली बिल का 40 प्रतिशत हिस्सा ऑनलाइन, 32 प्रतिशत काउंटर से और 30 प्रतिशत विभिन्न ई-वॉलेंट के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। ऑनलाइन सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए लोड बढ़ाने से लेकर नाम, पता बदलने तक की सुविधा एप के माध्यम से दी जा रही है। साथ ही बिजली का बिल जमा करने के लिए प्रतिमाह औसतन 7 एसएमएस भी भेजे जाते हैं। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि अक्टूबर-नवंबर 2023 में मेटेनिस माह मनाया गया, जिसके अच्छे परिणाम मिले हैं। बताया कि प्रदेश

में अप्रैल, मई और जून माह में बिजली की एक्सेज मांग में बढ़ोतरी हुई है। गर्मी के मौसम में सामान्य दिनों 27 से 28 हजार मेगावाट की डिमांड होती है, जबकि इन दिनों पड़ी भीषण गर्मी में मांग 33 से 35 हजार मेगावाट तक पहुंच गई है। बरसात के बाद इसमें कमी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि प्रदेश में 5255 मेगावाट की 10 यूनिट्स को लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके अलावा 5120 मेगावाट की तीन बड़ी परियोजनाएं ओबरा डी, अनपरा ई और मेजा द्वितीय पर भी काम जारी है। प्रदेश में बिजली के

टांसमिशन लॉस को न्यूनतम स्थिति में पहुंचाते हुए 3 प्रतिशत पर लाने का कार्य हुआ है। मुख्यमंत्री जी को बताया गया कि प्रदेश में नोएडा, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर और लखनऊ में विभाग की कई बड़ी परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्यचर परियोजना के प्रथम चरण में देश में 1 करोड़ जवाकि युपी में 25 लाख सोलर रूफ टॉप लगाने हैं। इसके लिए अबतक 16 लाख 97 हजार रजिस्ट्रेशन का कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना को तेज गति से अमल में लाया जाए।

बिजली बिल के नाम पर उपभोक्ताओं को किसी भी सूरत में परेशान न किया जाए : सीएम

डिजिटल मार्केटिंग व्यवसाय वृद्धि का जिन्न

■ **भारत टाइम्स**
अंकिता सिंह / लखनऊ। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को प्रचारित करना और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाना। आज की दुनिया में डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह लोगों से जुड़ने और उन्हें अपने उत्पाद या सेवाओं के बारे में जानकारी देने का एक अच्छा तरीका है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए विभिन्न तरीके हैं, जिनमें सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, पेपर क्लिक विज्ञापन आदि शामिल हैं। यह सभी तकनीकें आपके व्यवसाय को ऑनलाइन पहुंचाते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के फायदे अनगिनत हैं। यह आपको लाखों लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, आपके उत्पाद या सेवाओं की बिक्री बढ़ाता है और आपके ब्रांड को अधिक विश्वसनीय बनाता है। इस डिजिटल युग में, जिस तकनीक का उपयोग करके आप आपके उत्पादों और सेवाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, वहीं आपका व्यवसाय सफल होता है। इसलिए, डिजिटल मार्केटिंग अब एक जरूरत बन चुका है। इसलिए, अगर आप भी अपने व्यवसाय को विकसित करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग को अपना आवश्यक है। इस माध्यम से आप अपने व्यवसाय को



विस्तारित कर सकते हैं और अधिक ग्राहकों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। अतः, डिजिटल मार्केटिंग एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग करके आप अपने व्यवसाय को एक नया उचाई दे सकते हैं। तो अब समय नहीं है सोने का, बल्कि अपने व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर उसे आगे बढ़ाने का। भारत में भी डिजिटल मार्केटिंग का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। व्यापार के साथ-साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी डिजिटल मार्केटिंग का महत्व है। लोग विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों का उपयोग करके जानकारिता फैलाते हैं और अपनी बातें प्रसारित करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के लाभों में से एक है विस्तारित ग्राहक बेस का निर्माण करना। किसी भी व्यवसाय के लिए अधिक संभावित ग्राहकों को आकर्षित करना बहुत महत्वपूर्ण है और डिजिटल मार्केटिंग इसमें मदद कर सकती है।

■ **ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024** के प्रसूतिकरण का मुख्यमंत्री ने किया श्रवणीक
■ **सीएस का निर्देश**, श्रवणीक और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए रेट एडिशन का किया जाए सरकारीकरण
■ **ई-रजिस्ट्रेशन**, बेहतर रिपोर्ट और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का काम करने के भी निर्देश दिये। इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
■ **मुख्यमंत्री जी ने कहा कि** ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग का संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिपोर्ट और डाटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। इसको लेकर जल्द से जल्द तैयारी की जाए और ड्राफ्ट बनाकर प्रस्तुत किया जाए। सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन का काम करने के भी निर्देश दिये। इसके लिए अलग अलग ब्रैकेट बनाए जाएं और एग्रीमेंट की प्रक्रिया को सरल किया जाए।
■ **मुख्यमंत्री जी ने कहा कि** ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के अंतर्गत मौजूद रजिस्ट्रेशन के कोडिफिकेशन, ई-रजिस्ट्रेशन और ई-फाइलिंग का संपूर्ण व्यवस्था पारदर्शी हो।

ई-रजिस्ट्रेशन का कार्य सरकारी एजेंसीज और रेरा अप्रूव्ड संस्थाओं के माध्यम से कराया जाए। वहीं ई-फाइलिंग का कार्य बैंक फाइल 6 (1), 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 और 89 के अंतर्गत किसी भी डॉक्यूमेंट के माध्यम से कराया जाए।
■ **मुख्यमंत्री जी ने कहा कि** ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज-1 में सरकारी एजेंसियों- डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। सरकारी एजेंसियों के नोडल अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतिकरण और स्वीकृति प्रदान की जाए। साथ ही पार्टियों का फोटो और सिग्नेचर भी डिजिटली या इलेक्ट्रॉनिकल रूप से किया जाना चाहिए। पंजीकरण उपरोक्त प्रक्रिया के इलेक्ट्रॉनिक प्रेषित डेटा के आधार पर रजिस्ट्रार अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के फेज-2 में सेल डीड, एग्रीमेंट और लीज डीड के लिए रेरा द्वारा अनुमोदित संस्थाओं तक विस्तारित किया जाए। पार्टियों का फोटो और हस्ताक्षर डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाए। प्रक्रिया के तहत इलेक्ट्रॉनिक प्रसारित डेटा के आधार पर पंजीकरण अधिकारी द्वारा

पंजीकरण किया जाए।
■ **मुख्यमंत्री जी ने कहा कि** ई-फाइलिंग के तहत फेज-1 में बैंक फाइलों की प्रॉसेसिंग पहले ही शुरू हो चुकी है, जबकि दूसरे फेज में 12 माह तक का रेंट एग्रीमेंट, ऑनलाइन स्टार्पिंग, ई-सिग्नेचर और पार्टियों और गवाहों का ई-केवाईसी वैरिफिकेशन आधार के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वित्तमंत्रालय में पंजीकरण के लिए रजिस्ट्री कार्यालय में उपस्थित अनिवार्य है। यह प्रदेश के नागरिकों के लिए असुविधाजनक तो है ही, साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। ई-रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफी राहत मिलेगी। इससे मध्यस्थ की आवश्यकता खत्म हो जाएगी, जबकि लोगों के पैसे और समय की भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त कानूनी और किसी अन्य तरह की समस्या का भी सामना नहीं करना होगा। साथ ही कार्यालयों की कार्यकुशलता को भी वृद्धि होगी।
■ **मुख्यमंत्री जी ने कहा कि** रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स बहुत सॉसिटिव रिकॉर्ड्स होते हैं और साथ ही इनके साथ छेड़छाड़ की गुंजाइश बनी रहती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित होने के साथ ही इन्हें सत्यापित करना भी आसान है।

राजस्थानी फीचर फिल्म 'आवकारा' को मिलेगा आईफा अवार्ड स्नेहा उल्लाल निर्देशक और निर्माता को करेगी सम्मानित

■ **भारत टाइम्स**
मुंबई/लक्ष्मण कुमार। आवकारा फिल्म राजस्थानी फिल्म है। इस फिल्म को लेकर काफी हलचल है। राजस्थान के सुपर स्टार दिनेश राजपुरोहित अपनी अदाकारा से राजस्थानियों का दिल ए दिन धड़काते रहते हैं। राजस्थानी फिल्म के माध्यम से वे अपनी संस्कृति को बसाने का संदेश देने का काम करते



रहते हैं। दिनेश राजपुरोहित की अगली फिल्म 'आवकारा' को मुंबई में आईफा में नामांकित किया गया।
वहा मौजूद बॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के बीच 'आवकारा' फिल्म के निर्देशक-दिनेश राजपुरोहित है, निर्माता-चंद्रशेखर जांगिड़ और एक्टर-डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित को स्नेहा उल्लाल कर्करा अ अवार्ड से सम्मानित करेगी। 'आवकारा' फिल्म हॉरर मूवी है लेकिन हॉरर के साथ-साथ इस फिल्म में भरपूर कॉमेडी है। इस फिल्म की शूटिंग जोधपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा में हुई है। 'आवकारा' फिल्म के निर्देशक-दिनेश राजपुरोहित है, निर्माता-चंद्रशेखर जांगिड़, सह-निर्माता-दिनेश बिशनोई, लेखक-परवत सिंह, कस्टिंग-निराली सोनी, दिनेश राजपुरोहित, पंकज शर्मा, शिवा राणा, अशोक देवड़ा, दिनेश बिशनोई, परीक्षित शर्मा, अर्जुन शर्मा सल्लप्रकाश जांगिड़ हैं।

भौलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा में हुई है। 'आवकारा' फिल्म के निर्देशक-दिनेश राजपुरोहित है, निर्माता-चंद्रशेखर जांगिड़, सह-निर्माता-दिनेश बिशनोई, लेखक-परवत सिंह, कस्टिंग-निराली सोनी, दिनेश राजपुरोहित, पंकज शर्मा, शिवा राणा, अशोक देवड़ा, दिनेश बिशनोई, परीक्षित शर्मा, अर्जुन शर्मा सल्लप्रकाश जांगिड़ हैं।

दूसरी ओर आस्था हो जाए तो वह मन से हदय से जुड़ जाता है। किसी बात अथवा कार्य पर आंतरिक अनुराग और आस्था न हो तो उस कार्य में कमी हो सकती है। इसलिए आदमी को अपनी आस्था को हृदय को प्रयास करना चाहिए। आस्था, भक्ति हृदय को भक्ति की शक्ति से आदमी आगे विकास भी कर सकता है। अपने आराध्य व साध्य के प्रति आस्था, भक्ति को हृदय बनाकर का प्रयास होना चाहिए। आचार्यश्री ने आशीष प्रदान करते हुए कहा कि यहां के लोगों में व विश्वास्थियों में अच्छा विकास होता रहे। आचार्यश्री के मंगल प्रवचन के उपरान्त विद्यालय के अध्यक्ष श्री बाबा साहेब पाटील व श्री जितेन्द्र पाटील ने अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी तथा आचार्यश्री से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया।

आधुनिक फायर फाइटिंग व पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस होगा भदोही का मार्ट

■ **भारत टाइम्स**
लखनऊ/भदोही। उत्तर प्रदेश के समेकित विकास का खाका खींच रही योगी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के साथ ही नागरिक सुविधाओं में इजाजत करने के लिए भी प्रयासरत है। इसी क्रम में, सीएम योगी की मंशा अनुसार भदोही में बने मार्ट के कार्यालय की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है जिसके अंतर्गत उसे आधुनिक फायर फाइटिंग, अलार्म सिस्टम व पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लैस

किया जाएगा। इस उच्चोकरण प्रक्रिया को भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्ण किया जा रहा है तथा सभी प्रक्रियाओं को अगले तीन महीने में पूरा कर लिया जाएगा। 53.30 लाख रुपये के व्यय से उच्चोकरण कार्य होंगे पूर्ण- भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित बीडा मार्ट में उच्चोकरण प्रक्रिया को 53.30 लाख रुपये के व्यय से पूर्ण किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कालीनों के निर्माण के लिए देश-विदेश में विख्यात भदोही में एक

लाख से ज्यादा लूम, 500 से अधिक नियात इकाइयां तथा 63000 कारिंग सक्विप हैं। पूरी दुनिया में शहर की पहचान हाकलीन नगरी के तौर पर है। ऐसे में यहां के औद्योगिक परिवेश को बढ़ावा देने और समग्र विकास के दृष्टिगत भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरणका गठन किया गया था। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत भदोही टाउन समेत कुल 314 स्क्वेयर किलोमीटर (31400 हेक्टेयर) का कार्यक्षेत्र आता है।

सचिव परमजीत सिंह बग्गा ने कहा कि डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मई 1953 में जन्म कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना था किंतु उन दिनों जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था लेकिन उन्होंने अपना परमिट ले ही राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया जब उन से परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं आऊंगा उन्हें गिरफ्तार कर नजर बंद कर दिया 40 दिन तक ना उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गईं 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पुण्यतिथि पर स्वर्ग लोक से भारतीय संसद भवन पर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया और जम्मू कश्मीर की जनता को भी भारत के अन्य प्रांतों की तरह सुविधाएं प्राप्त करने वाला नागरिक बनाया हृदय सुमन अर्पित व विचार रखने वालों में सर्वश्री जसवीर सिंह, डॉक्टर मंजीत सिंह खलसा, बलवीर सिंह कोहली, हरजीत सिंह कथुरिया, मनु चावला, प्रेमजीत सिंह गुजराल, हेमो चावला, बंटी पूरी, लखविंदर सिंह, कमल सिंह, कुलदीप सिंह खलसा, जसवंदर सिंह जग्गी, चरनजीत सिंह, हरधनजी सिंह, दलजीत कौर रहे।

युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमण -10 किलोमीटर का विहार कर टाकरखेड़े में पधारे युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमण

ज्ञान और आचरण के मध्य सेतु है भक्ति व आस्था : शांतिदूत आचार्यश्री महाश्रमण

■ **भारत टाइम्स**
टाकरखेड़े। जलगांव (महाराष्ट्र)। एक वर्ष से भी अधिक समय से महाराष्ट्र राज्य की सीमा में विहार व धर्मसंघ के ग्यारहवें अनुशास्ता, भगवान महावीर के प्रतिनिधि, युगप्रधान आचार्यश्री महाश्रमणजी वर्तमान में अपनी धवल सेना के साथ महाराष्ट्र के खान्देश क्षेत्र में गतिमान हैं। खान्देश की यात्रा में शनिवार को शांतिदूत आचार्यश्री महाश्रमणजी ने प्रातःकाल की मंगल बेला में धरणागांव से मंगल प्रस्थान किया। धरणागांववासियों ने श्रीचरणों में अपनी कृतज्ञता अर्पित की। कभी धूप, कभी आसमान में छाया का क्रम जारी था। इसके साथ उमस भी अपना प्रभाव बनाए हुए थी। मानसून की आहट से पूर्व ही किसान खेतों के



प्राथमिकशाला में आयोजित मुख्य प्रवचन कार्यक्रम में उपस्थित जनता को शांतिदूत आचार्यश्री महाश्रमणजी ने पावन पाथेय प्रदान करते हुए कहा कि आदमी के जीवन में ज्ञान का महत्त्व होता है तो आचरण का भी बहुत महत्त्व होता है। जीवन में सदाचरण का नहीं होना जीवन की एक कमी होती है। ज्ञान और आचरण मानव जीवन रूपी नदी के दो किनारे हैं। ज्ञान आचरण में उतरे इसके लिए श्रद्धा, भक्ति व आस्था रूपी सेतु की आवश्यकता होती है। ज्ञान होने के उपरान्त उसके प्रति भक्ति हो जाए, आस्था हृदय हो जाए तो फिर वह ज्ञान आचरणगत भी हो सकता है। आगमवाणी व गुरु के प्रति आस्था व भक्ति की भावना का होना आवश्यक होता है। एक तो आदमी व्यवहार में ऊपरी मन से दिखावा करता है और

दूसरी ओर आस्था हो जाए तो वह मन से हृदय से जुड़ जाता है। किसी बात अथवा कार्य पर आंतरिक अनुराग और आस्था न हो तो उस कार्य में कमी हो सकती है। इसलिए आदमी को अपनी आस्था को हृदय को प्रयास करना चाहिए। आस्था, भक्ति हृदय को भक्ति की शक्ति से आदमी आगे विकास भी कर सकता है। अपने आराध्य व साध्य के प्रति आस्था, भक्ति को हृदय बनाकर का प्रयास होना चाहिए। आचार्यश्री ने आशीष प्रदान करते हुए कहा कि यहां के लोगों में व विश्वास्थियों में अच्छा विकास होता रहे। आचार्यश्री के मंगल प्रवचन के उपरान्त विद्यालय के अध्यक्ष श्री बाबा साहेब पाटील व श्री जितेन्द्र पाटील ने अपनी भावपूर्ण अभिव्यक्ति दी तथा आचार्यश्री से पावन आशीर्वाद प्राप्त किया।

डॉक्टर मुखर्जी पुण्यतिथि पर संसद भवन में पुष्पवर्षा करते होंगे-सरदार पतविंदर सिंह

■ **भारत टाइम्स**
नैनी प्रयागराज। सिख सेवा संगम उत्तरप्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह ने स्वामी भूपेंद्र सिंह सभागर प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 61 वें बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर चित्र पर माल्याभरण, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने भारतीय संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से कहा था या तो मैं संविधान की रक्षा करूंगा नहीं तो मैं अपने प्राण दे दूंगा और हुआ भी यही डॉक्टर मुखर्जी परमिट बिना जम्मू कश्मीर गए और उन्हें शेख अब्दुल्ला की सरकार ने गिरफ्तार किया तब उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का सांसद हूँ मुझे अपने देश में कहीं जाने से आप कैसे रोक सकते हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1929 में बंगाल विधान परिषद सदस्य बने 1934 से 1938 तक कोलकाता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के उपकुलपति रहे बंगाल प्रांत के वित्त मंत्री रहे संविधान सभा के सदस्य बने और स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री बने सन 1952 के पहले आम चुनाव में दक्षिण कोलकाता संसदीय क्षेत्र लोकसभा सदस्य बने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ का गठन हुआ जिस के संस्थापक /अध्यक्ष बने देश के पहले आम चुनाव में जनसंघ को तीन सीटें मिली 26 जून 1952 को संसद में दिए अपने ऐतिहासिक भाषण में डॉक्टर मुखर्जी ने धारा 370 को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की प्रदेश

सचिव परमजीत सिंह बग्गा ने कहा कि डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मई 1953 में जन्म कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना था किंतु उन दिनों जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था लेकिन उन्होंने अपना परमिट ले ही राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया जब उन से परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं आऊंगा उन्हें गिरफ्तार कर नजर बंद कर दिया 40 दिन तक ना उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गईं 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पुण्यतिथि पर स्वर्ग लोक से भारतीय संसद भवन पर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया और जम्मू कश्मीर की जनता को भी भारत के अन्य प्रांतों की तरह सुविधाएं प्राप्त करने वाला नागरिक बनाया हृदय सुमन अर्पित व विचार रखने वालों में सर्वश्री जसवीर सिंह, डॉक्टर मंजीत सिंह खलसा, बलवीर सिंह कोहली, हरजीत सिंह कथुरिया, मनु चावला, प्रेमजीत सिंह गुजराल, हेमो चावला, बंटी पूरी, लखविंदर सिंह, कमल सिंह, कुलदीप सिंह खलसा, जसवंदर सिंह जग्गी, चरनजीत सिंह, हरधनजी सिंह, दलजीत कौर रहे।



सचिव परमजीत सिंह बग्गा ने कहा कि डा श्यामा प्रसाद मुखर्जी मई 1953 में जन्म कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े वहां जाकर स्थिति का अध्ययन करना था किंतु उन दिनों जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट लेना पड़ता था लेकिन उन्होंने अपना परमिट ले ही राज्य में प्रवेश करने का निर्णय लिया जब उन से परमिट मांगा गया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत की संसद का सदस्य हूँ अपने ही देश में कश्मीर में परमिट लेकर नहीं आऊंगा उन्हें गिरफ्तार कर नजर बंद कर दिया 40 दिन तक ना उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई और ना अन्य बुनियादी सुविधाएं दी गईं 23 जून 1953 को उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई सिख सेवा संगम उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपनी पुण्यतिथि पर स्वर्ग लोक से भारतीय संसद भवन पर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे रहे होंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सपने को साकार किया और जम्मू कश्मीर की जनता को भी भारत के अन्य प्रांतों की तरह सुविधाएं प्राप्त करने वाला नागरिक बनाया हृदय सुमन अर्पित व विचार रखने वालों में सर्वश्री जसवीर सिंह, डॉक्टर मंजीत सिंह खलसा, बलवीर सिंह कोहली, हरजीत सिंह कथुरिया, मनु चावला, प्रेमजीत सिंह गुजराल, हेमो चावला, बंटी पूरी, लखविंदर सिंह, कमल सिंह, कुलदीप सिंह खलसा, जसवंदर सिंह जग्गी, चरनजीत सिंह, हरधनजी सिंह, दलजीत कौर रहे।